



# **GOVT. NAVEEN COLLEGE BORI, DIST. DURG (C.G.)**

## **6.5.1**

- 1) Reports of activities of departments**
- 2) Result analysis**
- 3) Format for feedback**

कार्यालय प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी दुर्ग छत्तीसगढ़  
वनस्पति विज्ञान विभाग

बोरी /दिनांक 03/12/21

सूचना

महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 5 दिसंबर 2021 को विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी के वनस्पति विज्ञान विभाग के तत्वाधान में "मृदा की बढ़ती लवणता के कारण तथा उसके संरक्षण" विषय पर पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन माध्यम में किया जा रहा है जिसमें इच्छुक छात्र छात्राएं इस विषय में पोस्टर बना कर दिए गए गुगल फार्म में अपलोड करें।

Google form link

<https://forms.gle/BtZxx3BptXf11SGi7>

  
विभागाध्यक्ष

वनस्पति विज्ञान

  
प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
जिला -दुर्ग (छ.ग.)

2021-22

Date

27-12

Botany Department

International Soil Day 5 December 2021

की वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा पोस्टर कनाहों प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कुल 8 विद्यार्थियों ने भाग लिया जिनके नाम निम्नांकित हैं-

Name of students	Class	विजेता
1) Nitish Kumar	B.Sc. I Bio	भरत कुमार
2) Akshay Kumar Nishad	B.Sc. I Bio	
3) Kajal Sahu	B.Sc. II Bio	K Sahu.
4) Hemant Kumar	M.Com I sem	Postee
5) Varsha Soni	B.Sc. III (Bio)	Varsha Soni
6) Lokeshwari Sahu	B.Sc. III (Bio)	Lokeshwari
7) Vandana Sahu	B.A II	Vandana Sahu
8) Yashwant Yadav	B.A I	Yashwant

Timestamp	Email address	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	कक्षा का नाम
04/12/2021 20:14:06	nehan4173@gmail.com	Nitish kumar	Bhagwati prasad	B.Sc. I bio
05/12/2021 08:32:37	nishadakashaykumar1@gmail.com	Akshay Kumar nishad	Radhuram Nishad	B.Sc. I bio
05/12/2021 09:44:17	kajalsahasahu27@gmail.com	Kajal sahu	Mr. Rajendra Prasad	B.Sc. II bio
05/12/2021 10:14:35	hemantpatel3006@gmail.com	Hemant Kumar	Dhanesh ram	M.Com I semester
05/12/2021 13:24:50	varshasoni7722@gmail.com	Varsha soni	Rajendar soni	B.Sc. III bio
05/12/2021 14:35:26	rukhmanisahu112@gmail.com	Lokeshwari Sahu	Govardhan Sahu	B.Sc. III bio
05/12/2021 19:15:38	vandanasahu9174@gmail.com	Vandana sahu	Ramkumar sahu	B.A. II
05/12/2021 20:47:44	yashyadavyadav93@gmail.com	Yashwant Yadav	Mani ram yadav	B.A. I

10/12/2021 10:14:35

*(Signature)*  
H.O. (B) विज्ञान विभाग  
Botany

*(Signature)*  
Principal  
Govt. Neveen College Bori  
Dist. Durg (C.G.)

वसत्र २०२१-२२

माह	कक्षा	गतिविधि का नाम	उपस्थित विद्यार्थी
दिसंबर	B.Sc. II	जलमोलिसिल चंद्र का अध्ययन करने का उद्देश्य याद उसे का तरीका बताया गया	काजल साहू - K नेहा साहू - Neha Madhu - Madhu वर्षा खिड़े - वर्षा मौर्यमी - मौर्यमी कोमल - कोमल प्रिया - प्रिया अनुष्ठा - अनुष्ठा अनकाक्षा - अनकाक्षा निशा - निशा खिलेश्वरी - खिलेश्वरी सावित्री साहू - सावित्री महेश्वरी - Maheshwari सुजा - सुजा

उद्देश्य:- वसत्र कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न चंद्रों को समझने एवं लिखने के तरीके के बारे में बताना जिससे वे सभी चंद्रों को समझ सकें व व्यवस्थित रूप से परीक्षा दे सकें।

*Sharma*  
H.O.D. *Sharma*  
Botany

*Sharma*  
प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
जिला - दुर्ग (छ.प.)

# Biology Department

## Feed back by students

Name of the Students -	विचार
Prityanka Verma	अच्छा
Madhu	मैंम का सम्झने जतीका अच्छा लग
स्वाकिसी	एडुग अच्छा
अनुष्ठा कुप्टा	अच्छा लगा
मैधवरी	अच्छा लगा
पूना मुल्हावी	मुझे अच्छा लगा
मौरमी	और मुझे वहाँ पास अच्छ

लड़क अरुहा जब आप ग्लाइकोलिसिस के  
 सिमा के बाद NAD तथा A से ATP के कितने  
 अणु बने तथा ग्लाइकोलिसिस में कुल कितने अणु  
 बने।

Neha Sahu	अच्छ अच्छे से समझ आया
Kaveri Patel	अच्छा लगा
Laxmi Patel	अच्छे से समझ आया
Laxmi Sahu	अच्छे से समझ आया
Devika Verma	अच्छा लगा ।
Deepika Sahu	अच्छा लगा ।
Deepika	उत्कृष्ट प्राप्त हुई

Sharma  
(H.O.P.)

Principal  
Govt. Neelam College, P.O.  
Dist. Durg (C.G.)

उद्देश्य: - सेमिनार द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान का अंकुरित करने के लिए विषय का ज्ञान बढ़ाना

माह	कक्षा	भाषा	विषय का नाम	उपस्थित छात्रों की सूची
दिसंबर	B.Sc III	English	सहज जीव विज्ञान की संस्था एवं कार्य विषय में	Pradha Patel Kishor Lakeshwar Sachin Himanshi Rama Ajay Nish Pankaj Patil Sambhal Laxmi Patil Ravi Anuraj Total student
11/12/2021	12:30 - 1:00 PM		उत्कृष्ट शैली वर्ग द्वारा सेमिनार का प्रस्तुतीकरण	12/23

Bhama  
11/12/21  
H.O.D.  
Botany

Principal  
Govt. Devson College Bori  
Dist. Durg (C.D.)

(F.O.H)

Feed back by students

प्रस्तुति क्रमांक (OS)	प्रस्तुति क्रमांक (OS)	Total Overall presentation	नाम एवं छात्रांक
4	Nice	10	Prasanna
4 1/2	9.5	8.5	Jyoti
4	4	8.5	Kripkora
4 1/2	Good 4	8.5	Lakshwari
5	4	9	Vaishali Sani
4	Good	8.5	Hinaash, Barua
5	Very good	10	Jyoti Nimma
4	Good	8	Poojati Rk
3 1/2	Good	7.5	Divya DS
3 1/2	Good	7.5	Jandashi
4	Good	8	Laxmi Park
4 1/2 5	Good 4	7.5	
4			
4	Good	8	Sandoshi Sa

इस कार्यक्रम के बारे में छात्रों की प्रतिक्रिया

Jyoti Nimma - इस तरह के कार्यक्रम से छात्रों की अभिवृत्ति में सुधार होता है और विषय के बारे में जानकारी मिलती है और कठिनाई में सुधार होता है।

Lakshwari - इस तरह की गतिविधि होनी चाहिए। इससे हमें नयी जानकारी प्राप्त होती है।

Vaishali - इस कार्यक्रम से हमारे शिक्षण क्षमता में वृद्धि होती है।

Poojati - इस तरह का कार्यक्रम होनी चाहिए। इससे हमारे मनोबल में वृद्धि होती है।

Ravi Patel → यह गातीवाची होनी चाहिए।

Divya Sahu → क्या तरह के कार्यक्रम होना चाहिए। कससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा करने में सहायता मिलती है।

Himanshu → यह कार्यक्रम होनी चाहिए। जिसमें अलग तरह का शिक्षा प्राप्त होता है।

Sanatashi Jadhav → होनी चाहिए। कससे हमारा मनोबल बढ़ता है।

Sahashi Sahu → होनी चाहिए। क्या तरह के गातीवाची को विषयवस्तु को नई तरह से समझने का अवसर प्राप्त होता है।

प्रतिभा, कि शिक्षा कि शिक्षक को ही प्रोत्साहन देना  
प्रतिभा को प्रोत्साहित कि शिक्षा कि प्रोत्साहन देना  
प्रतिभा को प्रोत्साहित कि शिक्षा कि प्रोत्साहन देना

प्रतिभा को प्रोत्साहित कि शिक्षा कि प्रोत्साहन देना  
प्रतिभा को प्रोत्साहित कि शिक्षा कि प्रोत्साहन देना

Shamra  
11/12/21  
Principal  
Govt. Neveon College Bori  
Dist. Durg (C.S.)

2021-22

माह	कक्षा	गतिविधि का नाम	उपरिष्ठित विद्यार्थियों के हस्ताक्षर
सितंबर	B.Sc-II	विभिन्न कुलों के अध्ययन को समझने हेतु कुल वृंसीवृंसी का अध्ययन कराया गया जिसके उद्देश्य कुलों के अध्ययन के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली वानस्पतिक शब्द-वलिपों एवं पुष्प चित्र बनाने के तरीके के बारे में बताया गया।	अनुष्का - अनुष्का गुप्ता मयू - मयू मीरामी - मीरामी प्रियंका - प्रियंका रागरि - रागरि सरिता - सरिता साक्षी - साक्षी यामेश्वर - यामेश्वर युवराज - युवराज अकंका - अकंका
11/21	11:00-2:00 PM	इसका उद्देश्य छात्रों में विभिन्न कुलों के अध्ययन को आसान बनाना था	काजल - काजल महेश्वरी - Maheshwari पूजा मंडवी - पूजा मंडवी तोसलाल - तोसलाल शुशुब - शुशुब

कार्यक्रम के संबंध में छात्रों की प्रतिक्रिया

सिम्रा :- मुझे पुष्प का पुष्पीय सूत्र बहुत अच्छे समझ में आया तथा कैसे लिखना है यह भी पता चला।

दिव्या :- पुष्पीय विवरण अच्छे से समझ आया।  
मयू - पुष्पीय विवरण अच्छे से समझ आया।

अनुष्का	15
मयू	10
मीरामी	10
प्रियंका	10
रागरि	10
सरिता	10
साक्षी	10
यामेश्वर	10
युवराज	10
अकंका	10
काजल	10
महेश्वरी	10
पूजा मंडवी	10
तोसलाल	10
शुशुब	10

H.O.D. Bodany

Principal  
Govt. Neveon College Bori  
Dist. Durg (C.E.)

अत्र

दिनांक - 13/12/21

कक्षा - B.Sc. I

गतिविधि का नाम - Doc Scanner की

सहायता से PDF तैयार करना

उद्देश्य :- विद्यार्थियों को पुस्तक की अनुमति

दोने पर पुस्तक से PDF तैयार कराना

Prepare करवाना।

Name of the Students	Signature	Name	Seg
1) Manisha Sahu	Manisha	गुरनिमा वर्मा	Raniya
2) Priyanka Nimalkar	Priyanka		
3) Muskan Rajput	Muskan		
4) Venu Patel	Venu		
5) Ananti Sahu	Ananti		
6) Madhu Sahu	Madhu		
7) Vidya Yadav	Vidya		
8) Hushi Verma	Hushi		
9) Roshan Patel	रश्मि		
10) Tarni Deshmukh	तारुणी		
11) Priyanka Nishad	प्रियंका		
12) दीपिका साहू	दीपिका		
13) दीपिका वर्मा	दीपिका		
14) दीपिका	दीपिका		
15) मेधा वर्मा	मेधा		
16) रुमती जाँझी	रुमती		
17) पल्लवी वर्मा	पल्लवी		
18) गुरनिमा वर्मा	गुरनिमा		
19) Suraj Kumar	Suraj		
20) SAKSHI YADU	Sakshi		
21) Akshay Kumar	अक्षय		
22) हरिहर प्रसाद देवीगंज	हरिहर		
23) Leena Nishad	Leena		
24			

26) Sandhya sharma	Sandhya
27) Kavayati Patel	Kavayati Patel
28) Laxmi Patel	Laxmi Patel
29) Ajay Patel	Ajay Patel
30) Raman sahu	रमन
31) Manish Kumar	मनीष कुमार
32) तेजेश्वर पसाडे	Tejeshwar

कार्यक्रम के अंतर्गत में विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया

- (i) Suraj Kumar - PDF बनाना
- (ii) Priyanka Mishra - बहुत अच्छा लगा।
- (iii) Venu Patel - बहुत अच्छा लगा।
- (iv) Taruni Deshmukh - बहुत अच्छा लगा।
- (v) Muskan Rajput - अच्छा लगा।
- (vi) Priyanka Nirmalika - अच्छा लगा।
- (vii) Madhu Sahu - अच्छा लगा।
- (viii) Rajeshwari - PDF बनाना सीखा।
- (ix) Manisha - PDF बनाना सीखा।
- (x) Renuka Sahu - PDF बनाना सीखा।
- (xi) SARSHI YADU - PDF बनाना सीखा जो भविष्य में बहुत उपयोग होगा।
- (xii) Hulsii Verma - PDF से हमें भविष्य में मदद मिलेगी।
- (xiii) Pallavi Verma - PDF बनाने सीखने के पढ़ाई में मदद मिली।  
Ruranti Jashi - PDF बनाना सीखा जो हमें भविष्य में मदद होगा।
- (xiv) Anviti Sahu - PDF बनाना सीखा जो हमारे जीवन में काम की है।

H. O. D.  
Botany

Principal  
Govt. Navjeevan College Bor  
Dist. Durg (C.P.)

Botany Department

2021-22

Date: / /

दिनांक - 05/01/2022  
समय - 12:20 - 1:00 pm

स्थान - वी०एससी० लतीपवद  
कक्षा

विषय :- कैरियर गाइडलाइन

उद्देश्य - स्नातक की शिक्षा के पश्चात विद्यार्थियों को उनकी कवि के अनुसार कक्षा की पढ़ाई की ओर प्रेरित करना

सारांश :- विद्यार्थियों की M.Sc., PGDC, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई

Tyoti Mishra → इस तरह के कार्यक्रम से हमें Career Guidance बहुत अच्छा लगा

Pavarti Patel → बहुत अच्छा था।

Varsha Soni → बहुत अच्छा था।

Pratigya Sharma - बहुत अच्छा लगा।

Pooja Chauhan → बहुत ही अच्छा लगा।

Smitoshi Yadav → बहुत अच्छा लगा।

Divya Sahu → बहुत अच्छा लगा।

Bhmeshwari Verma इससे हमें बहुत अच्छा Guidance मिला

Bano Bee - Very good

Komal Sahu - Very good

Devendra Sahu - Very good


Rakesh Kumar Sahu - \* बहुत ही Useful Life के लिए।

Divya Verma - बहुत अच्छा लगा।

Himanshi Patel - बहुत अच्छा लगा।

Shama  
H.O.  
Botany

~~Handwritten signature~~  
20.11  
2021



College  
rg (CG)



Google

**Funda, Chhattisgarh, India**

**87W4+MP8, Funda, Chhattisgarh 491001, India**

**Lat 21.3466°**

**Long 81.256689°**

**05/01/22 01:06 PM**



GPS Map Camera

सत्र

Seminar

का आयोजन

दिनांक 21/1/22 को वी० एस० सी० प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। ये आयोजन गूगल मीट लिंक पर वट-फ्रेंड-एट पर किया गया जिसके विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में विषय के प्रति लगाव उत्पन्न करना है।  
कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है-

1. कक्षा - वी० एस० प्रथम वर्ष  
प्रस्तुतकर्ता - पार्वती वर्मा (Class Roll No - SB-107)  
समय - 11:40 - 12:10  
विषय - माइकोप्लाज्मा  
कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या - 21

2. कक्षा - वी० एस० सी० तृतीय वर्ष  
प्रस्तुतकर्ता - ~~मांजी~~ वाणी बानी (Class Roll No 302)  
समय - 12:20 -  
विषय - मांजी वाणी

प्रस्तुतकर्ता - दिव्या साहू (Class Roll No - 317)  
समय - 12:35 - 12:55  
विषय - एंजोप्लाज्मिक बैरीडुलम

3. कक्षा - वी० एस० सी० द्वितीय वर्ष  
प्रस्तुतकर्ता - मैहा साहू  
समय - 01:00 - 1:30  
विषय - जल अणु संरचना  
कुल विद्यार्थियों की संख्या - 12

कायालय प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय-बोरी, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

www.govtcollegebori.com  
Email-govtcollegebori@gmail.com  
College Code - 1609

बोरी दिनांक 24 / 11 / 2021

वानस्पतिक विभाग  
प्रोजेक्ट विवरण  
सत्र 2021 -22

सूचना

बीएससी भाग तृतीय वर्ष ( बायों ) के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है की दिनांक 24/11/21 को आपको वानस्पतिक विज्ञान विषय के प्रायोगिक कार्य में सम्मिलित प्रोजेक्ट का विवरण किया गया है जिसकी विवरण निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत किया जाना है -

1. Name of disease
2. Causal organism
3. Etiology of Causal organism
4. Symptoms
5. Life cycle of causal organism
6. Control measurement .

अतः समस्त विद्यार्थी उपरोक्त शीर्षकों के अंतर्गत अपना PPT तैयार करेंगे व दिए गए Google form में उसे Upload करेंगे |

*Bhama*  
विभागध्यक्ष

वानस्पतिक विज्ञान विभाग

*K. S. K. K.*  
प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
जिला -दुर्ग (छ.ग.)

**Govt. Naveen College Bori Dist. Durg (C.G.)**  
**Certificate of completion of project**

Academic session 2021-22

This is to certify that following students of class ...B.Sc. III (Bio) of Govt. Naveen College Bori have completed the project assigned to them, the description of which is mentioned against their name :

S.No.	Name of student	Title of project
1.	Bhuneshwari	Powdery mildew disease
2.	Bobi Bano Bee	Powdery mildew disease
3.	Dolly Patel	Leaf curl disease
4.	Durga Chauhan	Spot disease
5.	Himanshi Patel	Downey mildew disease
6.	Komal Sahu	curling disease
7.	Neha Yadav	Rust disease of wheat
8.	Santoshi Yadav	Important Spot disease
9.	Yugal Kishor	Leaf curl disease
10.	Yogita Sen	Downey mildew
11.	Vansha	Mellow rust disease of wheat
12.	Ravi Patel	Not submitted
13.	Rakesh Kumar Sahu	curling disease
14.	Lokeshwari	Rust disease
15.	Laxmi	Smut disease
16.	Devendra Sahu	Blight (bengal gram)
17.	Divya Sahu	Powdery mildew disease
18.	Santoshi Sahu	Rust disease
19.	Pratigya Sharma	Spot disease
20.	Jyoti	Smut disease
21.	Divya Verma	Downey mildew
22.	Parvati	Not submitted
23.	Mordhwaj	Not submitted

Ghama  
H.O.D Botany

Principals  
Principal  
Govt. Naveen College Bori  
Dist. Durg (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय-बोरी, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

www.govtcollegebori.com  
Email-govtcollegebori@gmail.com  
College Code - 1609

बोरी दिनांक २१ / ११ / २०२१

वनस्पतिक विज्ञान विभाग

फील्ड स्टडी रिपोर्ट

सत्र २०२१ - २२

सूचना

बीएससी भाग द्वितीय वर्ष ( बायो ) के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने घरों के आस पास पाए जाने वाले वानस्पतिक कुल मन्चेसी, सोलेनेसी, लेमिपेसी, कान्वोल्वुलेसी, एपोसाइनेसी, एकेंथेसी, ब्रेसीकेसी, एस्टरेसी, यूफोर्बिएसी, एवं कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पादपों के पुष्पीय शाखा ( तना, पत्ती एवं फूल ) के हर्बेरियम तैयार करें एवं उसमें निम्नलिखित जानकारी दे -

( a ) पादप का नाम -

( b ) कुल का नाम -


*Shama*  
विभागध्यक्ष  
वनस्पति विज्ञान विभाग

*Kavishukarma*  
प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

Govt. Naveen College, Bori, Dist Durg (C.G.)

Result Analysis  
Subject Economics Class B.A.:I<sup>st</sup> Session 2021-22

Category of Student	Total Students	Total no of Pass + Supply Students	Total no of Fail Students	Total no of Pass Students	Total no of Supply Students	Total no of 1st div	Total no of 2nd div	Total no of 3rd div	1st div in %	2nd div in %	3rd div in %	Fail %	Pass %	Pass + Supply %
All	114	114	-	114	-	93	21	-	81.57	18.42	-	-	100%	100%
Male	40	40	-	40	-	29	11	-	72.5	27.5	-	-	100%	100%
Female	74	74	-	74	-	64	10	-	86.48	13.51	-	-	100%	100%
Gen Male	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gen Female	04	04	-	04	-	04	-	-	100	-	-	-	100%	100%
OBC Male	31	31	-	31	-	23	08	-	74.19	25.80	-	-	100%	100%
OBC Female	64	64	-	64	-	56	08	-	87.5%	12.5	-	-	100%	100%
SC Male	04	04	-	04	-	02	02	-	50	50	-	-	100%	100%
SC Female	03	03	-	03	-	01	02	-	33.33	66.66	-	-	100%	100%
ST Male	05	05	-	05	-	04	01	-	80%	20%	-	-	100%	100%
ST Female	03	03	-	03	-	03	-	-	100%	-	-	-	100%	100%

Signature of Prof.   
Department of Economics

  
Signature of Principal  
Govt. College Bori  
Dist. Durg (C.G.)

Govt. Naveen College, Bori, Dist Durg (C.G.)

Result Analysis

Subject Economics Class B.A. II Session 2021-22

Category of Student	Total Students	Total no of Pass + Supply Students	Total no of Fail Students	Total no of Pass Students	Total no of Supply Students	Total no of 1st div	Total no of 2nd div	Total no of 3rd div	1st div in %	2nd div in %	3rd div in %	Fail %	Pass %	Pass + Supply %
All	94	94	-	94	-	78	14	02	82.97%	14.89%	2.12%	-	100%	100%
Male	48	48	-	48	-	33	13	02	68.75%	27.08%	4.166%	-	100%	100%
Female	46	46	-	46	-	45	01	-	97.82%	2.17%	-	-	100%	100%
Gen Male	01	01	-	01	-	01	-	-	100%	-	-	-	100%	100%
Gen Female	02	02	-	02	-	02	-	-	100%	-	-	-	100%	100%
OBC Male	42	42	-	42	-	30	10	02	71.42%	23.80%	10.11%	-	100%	100%
OBC Female	38	38	-	38	-	37	01	-	97.36%	2.63%	-	-	100%	100%
SC Male	04	04	-	04	-	02	02	-	50%	50%	-	-	100%	100%
SC Female	05	05	-	05	-	05	-	-	100%	-	-	-	100%	100%
ST Male	01	01	-	01	-	-	01	-	-	100%	-	-	100%	100%
ST Female	01	01	-	01	-	01	-	-	100%	-	-	-	100%	100%

Signature of Prof

Department of Economics.


Signature of Principal


Govt. College Bori, Durg  
Govt. Naveen College Bori  
Dist. Durg (C.G.)

Govt. Naveen College, Bori, Dist Durg (C.G.)

Result Analysis

Category of Student	Total Students	Total no of Pass + Supply Students	Total no of Fail Students	Total no of Pass Students	Total no of Supply Students	Total no of 1st div	Total no of 2nd div	Total no of 3rd div	1st div in %	2nd div in %	3rd div in %	Fail %	Pass %	Pass + Supply %
All	82	82	-	82	-	79	03	-	96.34%	3.65%	-	-	100%	100%
Male	32	32	-	32	-	30	02	-	93.75%	6.25%	-	-	100%	100%
Female	50	50	-	50	-	49	01	-	98%	02%	-	-	100%	100%
Gen Male	02	02	-	02	-	02	-	-	100%	-	-	-	100%	100%
Gen Female	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBC Male	29	29	-	29	-	27	02	-	93.10%	6.89%	-	-	100%	100%
OBC Female	45	45	-	45	-	44	01	-	97.77%	2.22%	-	-	100%	100%
SC Male	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC Female	05	05	-	05	-	05	-	-	100%	-	-	-	100%	100%
ST Male	01	01	-	01	-	01	-	-	100%	-	-	-	100%	100%
ST Female	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Signature of Prof.   
 Department of Economics

  
 Signature of Principal  
 Govt. College **Principal** Durg  
 Govt. Naveen College Bori  
 Dist. Durg (C.G.)

**शासकीय महाविद्यालय-बोरी,जिला - दुर्ग (छ.ग.)**  
विद्यार्थी की प्रतिक्रिया सत्र.....

अ) पाठ्यक्रम का मूल्यांकन

क्र.	प्रश्न	संदर्भ	जवाब	समाधान	सुधारने की आवश्यकता
1	आप पाठ्यक्रम सामग्री में कलाओं को उद्देश्यों और प्रासंगिकता का मूल्यांकन कैसे करते हैं?				
2	आप पाठ्यक्रम में इकाइयों के अनुक्रम को कैसे आंकते हैं?				
3	छात्र पर भार को हटाने में पाठ्यक्रम का आकार क्या है?				
4	पाठ्यक्रम के अनुसार अवैकिक मूल्यांकन प्रणाली कैसे है?				
5	क्या किलेबस कैरियर ओरिएंटेड है				

ब) महाविद्यालय का शैक्षिक मूल्यांकन

क्र.	प्रश्न	संदर्भ	जवाब	समाधान	सुधारने की आवश्यकता
1	संयोजित जापूरी				
2	संयोजित की स्थिति				
3	व्याख्या कठ की उपलब्धता				
4	कार्यक्रम में छात्रों को सहाय प्रदान				
5	शैक्षिक संयोजन की व्यवस्था				
6	खेलकूद से संबंधित उपलब्ध संयोजन				
7	प्रयोगशाला में मुहूर्तकों की उपलब्धता				
8	एन.एस.एस. द्वारा संयोजित गतिविधियां				
9	छात्रों की शैक्षणिक निवारण संबंधी व्यवस्था				
10	महाविद्यालय में पढाई का वातावरण				

ग) शिक्षक-कार्य का मूल्यांकन

क्र.	प्रश्न	संदर्भ	जवाब	समाधान	सुधारने की आवश्यकता
1	अभ्यास करने वाले अभ्यासकों का विषयज्ञान				
2	पाठ्यक्रम पूरा करने में प्रत्येक की दरता				
3	अभ्यासक द्वारा विषय से संबंधित नवीनतम जानकारी प्रदान करना।				
4	विद्यार्थियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर प्रदान करना।				
5	सभी छात्रों को सहाय प्रदान का व्यवहार				
6	कक्षा में अभ्यासक पूरी तैयारी से आते हैं				

द) अन्य सुझाव

  
**Principal**  
Govt. Neveon College Bori  
Dist. Durg (C.G.)

विद्यार्थी का हस्ताक्षर